

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 389 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2023—अग्रहायण 30, शक 1945

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
अधिसूचना  
भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2023

क्र. एफ 3-8-2023-एक-4.—सन् 2024 में निम्नलिखित सामान्य (जनरल) छुट्टियां मध्यप्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों तथा संस्थाओं में मनाई जायेंगी:—

सामान्य (जनरल) छुट्टियां

स.क्र.	छुट्टी का नाम	घोषित छुट्टियों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्)	सप्ताह के दिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>समस्त रविवार</b>					
1	गणतंत्र दिवस	एक	26 जनवरी	माघ 06, 1945	शुक्रवार
2	संत रविदास जयन्ती	एक	24 फरवरी	फाल्गुन 05, 1945	शनिवार
3	महाशिवरात्रि	एक	08 मार्च	फाल्गुन 18, 1945	शुक्रवार
4	होली	एक	25 मार्च	चैत्र 05, 1946	सोमवार
5	पुण्य शुक्रवार (गुड फ्रायडे)	एक	29 मार्च	चैत्र 09, 1946	शुक्रवार
6	गुड़ी पड़वा/महर्षि गौतम जयन्ती	एक	09 अप्रैल	चैत्र 20, 1946	मंगलवार
7	चैती चांद	एक	10 अप्रैल	चैत्र 21, 1946	बुधवार
8	ईद-उल-फित्	एक	11 अप्रैल	चैत्र 22, 1946	गुरुवार
9	रामनवमी	एक	17 अप्रैल	चैत्र 28, 1946	बुधवार
10	परशुराम जयन्ती	एक	10 मई	वैशाख 20, 1946	शुक्रवार
11	बुद्ध पूर्णिमा	एक	23 मई	ज्येष्ठ 02, 1946	गुरुवार
12	ईदुज्जुहा	एक	17 जून	ज्येष्ठ 27, 1946	सोमवार
13	मोहर्रम	एक	17 जुलाई	आषाढ 26, 1946	बुधवार
14	स्वतंत्रता दिवस	एक	15 अगस्त	श्रावण 24, 1946	गुरुवार
15	रक्षाबंधन	एक	19 अगस्त	श्रावण 28, 1946	सोमवार
16	जन्माष्टमी	एक	26 अगस्त	भाद्रपद 04, 1946	सोमवार
17	मिलाद-उन-नबी	एक	16 सितम्बर	भाद्रपद 25, 1946	सोमवार
18	गांधी जयन्ती	एक	02 अक्टूबर	आश्विन 10, 1946	बुधवार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	दशहरा (विजयादशमी)	एक	12 अक्टूबर	आश्विन 20, 1946	शनिवार
20	महर्षि वाल्मीकी जयन्ती	एक	17 अक्टूबर	आश्विन 25, 1946	गुरुवार
21	दीपावली	एक	31 अक्टूबर	कार्तिक 09, 1946	गुरुवार
22	गुरुनानक जयन्ती/राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस (भगवान बिरसा मुण्डा जयन्ती)	एक	15 नवम्बर	कार्तिक 24, 1946	शुक्रवार
23	ख्रिस्त जयन्ती (क्रिसमस)	एक	25 दिसम्बर	पौष 04, 1946	बुधवार

टीप.— (1) इस विषय में कोषागार एवं उपकोषागार निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स एक्ट, 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा प्रसारित समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21 दिसम्बर 2023 की अधिसूचना से नियंत्रित होंगे।

(2)	डॉ. अम्बेडकर जयन्ती/वैशाखी	14	अप्रैल	चैत्र 25, 1946
	महावीर जयन्ती	21	अप्रैल	वैशाख 01, 1946
	महाराणा प्रताप जयन्ती/छत्रसाल जयन्ती	09	जून	ज्येष्ठ 19, 1946

ये दिन रविवार होने के कारण अलग से छुट्टी के दिन घोषित नहीं किये गये हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय गुप्ता, सचिव।

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2023

क्र. एफ 3-8-2023-एक-4. — भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्र. 20-25-56-पब-एक, दिनांक 8 जून 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अन्तर्गत सार्वजनिक छुट्टियों में पहले से शामिल सभी रविवारों के अतिरिक्त निम्न अनुसूची में उल्लिखित दिन भी सन् 2024 के लिए सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सार्वजनिक अवकाश के दिन होंगे :-

#### अनुसूची

स.क्र.	छुट्टी का नाम	घोषित छुट्टियों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्)	सप्ताह के दिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	गणतंत्र दिवस	एक	26 जनवरी	माघ 06, 1945	शुक्रवार
2	महाशिवरात्रि	एक	08 मार्च	फाल्गुन 18, 1945	शुक्रवार
3	होली	एक	25 मार्च	चैत्र 05, 1946	सोमवार
4	पुण्य शुक्रवार (गुड फ्रायडे)	एक	29 मार्च	चैत्र 09, 1946	शुक्रवार
5	बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी	एक	1 अप्रैल	चैत्र 12, 1946	सोमवार
6	ईद-उल-फित्	एक	11 अप्रैल	चैत्र 22, 1946	गुरुवार
7	रामनवमी	एक	17 अप्रैल	चैत्र 28, 1946	बुधवार
8	बुद्ध पूर्णिमा	एक	23 मई	ज्येष्ठ 02, 1946	गुरुवार
9	ईदुज्जुहा	एक	17 जून	ज्येष्ठ 27, 1946	सोमवार
10	मोहर्रम	एक	17 जुलाई	आषाढ़ 26, 1946	बुधवार
11	स्वतंत्रता दिवस	एक	15 अगस्त	श्रावण 24, 1946	गुरुवार
12	गांधी जयन्ती	एक	02 अक्टूबर	आश्विन 10, 1946	बुधवार
13	दशहरा (विजयादशमी)	एक	12 अक्टूबर	आश्विन 20, 1946	शनिवार
14	दीपावली	एक	31 अक्टूबर	कार्तिक 09, 1946	गुरुवार
15	गुरुनानक जयन्ती	एक	15 नवम्बर	कार्तिक 24, 1946	शुक्रवार
16	ख्रिस्त जयन्ती (क्रिसमस)	एक	25 दिसम्बर	पौष 04, 1946	बुधवार

टीप.— महावीर जयन्ती दिनांक 21 अप्रैल 2024 वैशाख 01, 1946 को रविवार होने के कारण अलग से छुट्टी घोषित नहीं की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय गुप्ता, सचिव।

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2023

ऐच्छिक (आप्तानल) छुट्टियां

स. क्र.	छुट्टी का नाम	घोषित छुट्टियों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्)	सप्ताह के दिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नववर्ष दिवस	एक	01 जनवरी	पौष 11, 1945	सोमवार
2	महर्षि गुरु गोकुलदास जी महाराज का जन्म दिवस	एक	06 जनवरी	पौष 16, 1945	शनिवार
3	मकर संक्रांति/पोंगल	एक	15 जनवरी	पौष 25, 1945	सोमवार
4	गुरु गोविन्द सिंह जी का जन्म दिवस	एक	17 जनवरी	पौष 27, 1945	बुधवार
5	हजरत अली का जन्म दिवस	एक	23 जनवरी	माघ 03, 1945	मंगलवार
6	बसंत पंचमी	एक	14 फरवरी	माघ 25, 1945	बुधवार
7	देव नारायण जयन्ती	एक	15 फरवरी	माघ 26, 1945	गुरुवार
8	नर्मदा जयन्ती	एक	16 फरवरी	माघ 27, 1945	शुक्रवार
9	छत्रपति शिवाजी जयन्ती	एक	19 फरवरी	माघ 30, 1945	सोमवार
10	स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस.	एक	23 फरवरी	फाल्गुन 04, 1945	शुक्रवार
11	शबरी जयन्ती	एक	24 फरवरी	फाल्गुन 05, 1945	शनिवार
12	शब-ए-बारात	एक	26 फरवरी	फाल्गुन 07, 1945	सोमवार
13	महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस	एक	05 मार्च	फाल्गुन 15, 1945	मंगलवार
14	एकलव्य जयन्ती	एक	08 मार्च	फाल्गुन 18, 1945	शुक्रवार
15	टोडरमल जयन्ती	एक	18 मार्च	फाल्गुन 28, 1945	सोमवार
16	वीरांगना अवंतिबाई का बलिदान दिवस	एक	20 मार्च	फाल्गुन 30, 1945	बुधवार
17	भाईदूज	एक	27 मार्च	चैत्र 07, 1946	बुधवार
18	भक्त माता कर्मा जयन्ती/जमात-उल-विदा	एक	05 अप्रैल	चैत्र 16, 1946	शुक्रवार
19	ईद-उल-फित् (के ठीक पूर्व का दिवस).	एक	09 अप्रैल	चैत्र 20, 1946	मंगलवार
20	महात्मा ज्योतिबा फुले जयन्ती/ भगवान मीनेष जयन्ती.	एक	11 अप्रैल	चैत्र 22, 1946	गुरुवार
21	निषादराज जयन्ती	एक	13 अप्रैल	चैत्र 24, 1946	शनिवार
22	हाट्केश्वर जयन्ती	एक	22 अप्रैल	वैशाख 02, 1946	सोमवार
23	वल्लभाचार्य जयन्ती	एक	04 मई	वैशाख 14, 1946	शनिवार
24	अक्षय तृतीया	एक	10 मई	वैशाख 20, 1946	शुक्रवार
25	श्री चित्रगुप्त जी का प्रकट उत्सव	एक	14 मई	वैशाख 24, 1946	मंगलवार
26	केवट जयन्ती	एक	15 मई	वैशाख 25, 1946	बुधवार
27	माँ अहिल्याबाई का जन्म दिवस	एक	31 मई	ज्येष्ठ 10, 1946	शुक्रवार
28	महेश जयन्ती	एक	15 जून	ज्येष्ठ 25, 1946	शनिवार
29	बड़ा महादेव पूजन	एक	20 जून	ज्येष्ठ 30, 1946	गुरुवार
30	कबीर जयन्ती	एक	22 जून	आषाढ़ 01, 1946	शनिवार
31	वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस/गदीर-ए-खुम.	एक	24 जून	आषाढ़ 03, 1946	सोमवार
32	योम-ए-अशुरा	एक	16 जुलाई	आषाढ़ 25, 1946	मंगलवार
33	नागपंचमी/जनजातीय दिवस	एक	09 अगस्त	श्रावण 18, 1946	शुक्रवार
34	दुर्गादास राठौर जयन्ती	एक	13 अगस्त	श्रावण 22, 1946	मंगलवार
35	पारसी नववर्ष दिवस	एक	15 अगस्त	श्रावण 24, 1946	गुरुवार
36	गणेश चतुर्थी	एक	07 सितम्बर	भाद्रपद 16, 1946	शनिवार
37	नवाखाई	एक	10 सितम्बर	भाद्रपद 19, 1946	मंगलवार
38	तेजाजी महाराज का निर्वाण दिवस तेजा दशमी.	एक	13 सितम्बर	भाद्रपद 22, 1946	शुक्रवार
39	डोलग्यारस	एक	14 सितम्बर	भाद्रपद 23, 1946	शनिवार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40	विश्वकर्मा जयन्ती/अनंत चतुर्दशी	एक	17 सितम्बर	भाद्रपद 26, 1946	मंगलवार
41	राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस.	एक	18 सितम्बर	भाद्रपद 27, 1946	बुधवार
42	प्राणनाथ जयन्ती	एक	01 अक्टूबर	आश्विन 09, 1946	मंगलवार
43	सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या	एक	02 अक्टूबर	आश्विन 10, 1946	बुधवार
44	अग्रसेन जयन्ती	एक	03 अक्टूबर	आश्विन 11, 1946	गुरुवार
45	दशहरा (महाष्टमी)/दशहरा (महानवमी)	एक	11 अक्टूबर	आश्विन 19, 1946	शुक्रवार
46	महाराज अजमोद देव जयन्ती/ टेकचंद जी महाराज का समाधि उत्सव.	एक	17 अक्टूबर	आश्विन 25, 1946	गुरुवार
47	डॉ. सैयदना साहब का जन्म दिवस	एक	23 अक्टूबर	कार्तिक 01, 1946	बुधवार
48	दीपावली (दक्षिण भारतीय)	एक	30 अक्टूबर	कार्तिक 09, 1946	बुधवार
49	दीपावली का दूसरा दिन	एक	01 नवम्बर	कार्तिक 10, 1946	शुक्रवार
50	छठ पूजा	एक	07 नवम्बर	कार्तिक 16, 1946	गुरुवार
51	भगवान शहस्त्रबाहु जयन्ती	एक	08 नवम्बर	कार्तिक 17, 1946	शुक्रवार
52	नामदेव जयन्ती	एक	12 नवम्बर	कार्तिक 21, 1946	मंगलवार
53	झलकारी जयन्ती	एक	22 नवम्बर	अग्रहायण 01, 1946	शुक्रवार
54	विश्व विकलांग दिवस	एक	03 दिसम्बर	अग्रहायण 12, 1946	मंगलवार
55	क्रांतिसूर्य टंट्या भोल बलिदान दिवस	एक	04 दिसम्बर	अग्रहायण 13, 1946	बुधवार
56	दत्तात्रय जयन्ती	एक	14 दिसम्बर	अग्रहायण 23, 1946	शनिवार
57	गुरु घासीदास जयन्ती	एक	18 दिसम्बर	अग्रहायण 27, 1946	बुधवार
58	महाराजा खेतसिंह खंगार जी की जयन्ती	एक	27 दिसम्बर	पौष 06, 1946	शुक्रवार
59	बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती	एक	31 दिसम्बर	पौष 10, 1946	मंगलवार

- टीप .— (1) प्रत्येक शासकीय कर्मचारी को इन 59 ऐच्छिक छुट्टियों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन की छुट्टियां दी जायेंगी, उससे अधिक नहीं.
- (2) निम्नलिखित त्यौहार / जयन्तियां आदि रविवार को पड़ने के कारण इन्हें ऐच्छिक अवकाश की सूची में शामिल नहीं किया गया है :—

स.क्र.	छुट्टी का नाम	ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	हेमू कालाणी का शहीदी दिवस	21 जनवरी	माघ 01, 1945
2	होली (होलिका दहन)	24 मार्च	चैत्र 04, 1946
3	विशु	14 अप्रैल	चैत्र 25, 1946
4	सेन जयन्ती	05 मई	वैशाख 15, 1946
5	शंकराचार्य जयन्ती (एकात्मता दिवस/दार्शनिक दिवस)	12 मई	वैशाख 22, 1946
6	ईद-उल-अदहा (ईदुज्जुहा के ठीक पूर्व का दिवस)	16 जून	ज्येष्ठ 26, 1946
7	रथ यात्रा	07 जुलाई	आषाढ़ 16, 1946
8	गुरु पूर्णिमा	21 जुलाई	आषाढ़ 30, 1946
9	गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती	11 अगस्त	श्रावण 20, 1946
10	बलराम जयन्ती	25 अगस्त	भाद्रपद 03, 1946
11	ओणम	15 सितम्बर	भाद्रपद 24, 1946
12	करवाचौथ पर्व	20 अक्टूबर	आश्विन 28, 1946
13	भाईदूज	03 नवम्बर	कार्तिक 12, 1946
14	गुरु तेगबहादूर का शहीदी दिवस	24 नवम्बर	अग्रहायण 03, 1946
15	संत श्री जिनतरण तारण जयन्ती	08 दिसम्बर	अग्रहायण 17, 1946

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय गुप्ता, सचिव.